

# कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।

105, चन्दर नगर, देहरादून, दूरभाष संख्या - (0135) 2724506, फ़ैक्स - 2726256, ईमेल - cmodehradoon@gmail.com

पत्रांक : मु0चि0अ0 / स्कूल0स्व0प्र0पत्र / 2023 / 2505

दिनांक: 20.04.2023

## —: स्वच्छता प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, रायवाला, देहरादून के पत्रांक-PHC / स्व0प्र0प0 / 2023 / 01 दिनांक: 03.04.2023 द्वारा की गयी निरीक्षण आख्या के अनुसार Nirmal Ashram Deepmala Pagarani Public School, श्यामपुर, ऋषिकेश, देहरादून का परिसर केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वच्छता एवं सफाई की दृष्टि से संतोषजनक पाया गया तथा विद्यालय में स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा पायी गयी।

*Attested*

*Lalitha*

**Lalitha Krishnaswamy**  
Principal  
Nirmal Ashram Deepmala  
Pagarani Public School  
Shyampur, Rishikesh (U.K.)

*[Signature]*  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
देहरादून।  
Chief Medical Officer  
Dehradun



Sub Divisional Level Water Quality Testing and Monitoring  
Laboratory

Uttarakhand Jal Sansthan, Rishikesh

Ph (O): 0135 – 2430239, E-mail: ujslabrishikesh@gmail.com

Test Report ID: Report No. 11/UJS/SDWQTML/RK/2022-23

Dated: 12/05/2023

**WATER QUALITY RETEST REPORT**

Name and Address of Organization/ Customer	<b>Nirmal Ashram Deepmala Pagarani Public School, Rishikesh</b>		
Product Description (Surface Water/ Ground Water/ Drinking Water)	Drinking Water	Sample Description	One Water Sample collected from <b>Nirmal Ashram School Shyampur, Rishikesh</b>
Reference Sample Identification:	SDWQTMLRK/UJS/ SCH/11		Date of Start of Analysis: 12/05/2023 Date of End of Analysis: 20/05/2023
Date and Time of Sample Received: 12/05/2023 & 10:50 AM	Sample Collected by:		Sample Assistant

SN	Water Quality Parameters Under Chemical Scope	Results	Desirable Limit (BIS)	Permissible Limit (BIS) in the Absence of alternative source	Std. Test Method
1.	pH	7.11	6.5 to 8.5	No Relaxation	IS 3025 Pt-11, 2017
2.	Total Dissolved Solids (TDS), mg/L	262	500	2000	IS 3025 Pt-16-2017
3.	Turbidity, NTU	0.81	1	5	IS 3025 Pt-10-2017
4.	Total Alkalinity (as CaCO <sub>3</sub> ), mg/L	132	200	600	IS 3025 Pt-23: 2019
5.	Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> ), mg/L	168	200	600	IS 3025 Pt-21: 2002
6.	Calcium (as Ca), mg/L	46	75	200	IS 3025 Pt-40 : 2019
7.	Magnesium (as Mg), mg/L	29.64	30	100	APHA 23rd Ed.-3500-Mg B: 2017
8.	Chloride, mg/l	6	250	1000	IS 3025 Pt-32 : 2019
9.	Colour, Hazen	3	5	15	IS 3025 Pt-04 : 2021
10.	Odour	Agreeable	Agreeable	Agreeable	IS 3025 Pt-05 : 2018
11.	Taste	Agreeable	Agreeable	Agreeable	IS 3025 Pt-08 : 2012
12.	Total coliform MPN/100 ml	Absent	Absent	Absent	APHA 23rd Ed-9223-B
13.	E. Coli, MPN/100 ml	Absent	Absent	Absent	APHA 23rd Ed-9223-B

Remark: Above received water sample conforms to IS: 10500-2012 for drinking purpose with respect to above tests.

*Attended*  
*Lalitha*  
**Lalitha Krishnaswamy**  
Principal  
Nirmal Ashram Deepmala  
Pagarani Public School  
Shyampur, Rishikesh (U.K.)

*Pink*  
उत्तराखण्ड जल परीक्षण प्रयोगशाला  
उत्तराखण्ड जल संस्थान  
रिषिकेश

—End of Report—

1. The results listed refer only to tested sample and applicable parameters.
2. This certificate is not to be reproduced wholly or in parts promotional publicity or legal purpose without permission of authority of testing laboratory.
3. The samples will be destroyed after fifteen days from the date of issue of test certificate, unless otherwise agreed with customer.